



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2003/माघ 25, 1924

No. 151]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2003/MAGHA 25, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2003

का.आ. 176(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 1 मार्च, 2002 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 266 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2002 द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में (पुणे से सतारा खंड) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 पर 725 किमी से 797 किमी के भूखंड को चार लेन बनाने के लोकप्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी है ;

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में सतारा जिले में 725 कि.मी. से 797 कि.मी. तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 4 के पुणे सतारा खंड को चार लेन का बनाने के लिए अर्जन की जानेवाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला - सतारा

क्रम संख्या	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या/भवन संख्या	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भूमि की किस्म	भू स्वामी का नाम तथा अन्य हितबद्ध का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खण्डाला	(1) केशरडी	635 भाग	2000	निजी	भगवान परबती ढमाल, तानाजी परबती ढमाल, शिवाजी परबती ढमाल, दत्तु परबती ढमाल, शरद नथु ढमाल, विठठल नथु ढमाल, रामदास नथु ढमाल, इंद्रजीत बालासो ढमाल, अन्य अधिकार, मंगल परबती ढमाल, शालन किसन सालुंके, समिंद्राबाई बाबुराव पवार, द्रोपदाबाई परबती ढमाल, लिलाबाई बालासो ढमाल, तुकाराम बालसो ढमाल, ज्ञानेश्वर बालसो ढमाल, सिंधू दत्तात्रय मोरे.
			636 भाग	2400	निजी	दिनकर जगन्नाथ पवार, भिकाजी जगन्नाथ पवार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड मुंबई शाखा वाई, अन्य अधिकार, भागुबाई जगन्नाथ पवार,

						नथुराम जगन्नाथ पवार
			637 भाग	2000	निजी	उत्तम कोडीबा पवार, दत्तात्रय कोडीबा पवार, नथु कोडीबा पवार, अन्य अधिकार, सुगंधाबाई कोडीबा पवार, रत्नाबाई रामचंद्र चव्हाण, अपरकाबाई कोडीबा पवार,
			627 भाग	5100	निजी	रघुनाथ गंगाराम ढमाल, व्यंकट गंगाराम ढमाल, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड मुंबई शाखा, खंडाला, राजेश कांतीलाल शहर, कृष्णा गंगाराम ढमाल, अल्का विठठल ढमाल, नितीन विठठल ढमाल, गणेश विठठल ढमाल.
			628 भाग	1900	निजी	नथु सद्दु ढमाल, सुजाता राजेंद्र शहा, राजेंद्र चंदुलाल शहा, अन्य अधिकार, नायगाव विकास सोसायटी, यशवंत वामन ढमाल, मुकुनराव विष्णुपंत पापल.
			633 भाग	1400	निजी	यशवंत विष्णुपंत पापल ललिता विजय बोश, सरसाबाई मोतीलाल मुथा, जितेद्रसिंग मुकंदराव विष्णुपंत पापल, यशवंतराव विष्णुपंत पापल, संतोषसिंग गडाख सरसाबाई मोतीलाल मुथा, जितेद्रसिंग संतोषसिंग गडाख.

			634 भाग	1000	निजी	नंदा बालासो सागले, धनंजय बालासो सागले, शेवगीरी बालासो सागले, यशवदा बालासो सागले, गीता बालासो सागले, अपाक आई नंदा, मारुती बाबुराव सागल.
			624 भाग	800	निजी	खंडु भागु ठोबरे, एकनाथ खंडु ठोबरे, तुकाराम खंडु ठोबरे, यशवंत खंडु ठोबरे, संतोष खंडु ठोबरे, सिंधु खंडु ठोबरे नागेश खंडु ठोबरे.
			625 भाग	2900	निजी	विठठल नथु पवार, अन्य अधिकार, तुकाराम झानेबा रोहिदास, नथु पवार, तानुबाई नथु पवार रंगुबाई नारायण गायकवाड़, ताराबाई घोडीराम जाधव.
			626 भाग	3100	निजी	मन्याबा सखाराम पवार, बालु मन्याबा पवार, अण्णा मन्याबा पवार, परमेश्वर मन्याबा पवार, बाबुराव कोडी पवार, अन्य अधिकार, शेवांताबाई सखाराम पवार.
			623 भाग	6600	निजी	बालासो कोडीबा देवकाते, धोडीबा कोडीबा देवकाते, सिंधु कोडीबा देवकोते, राजाराम सोमा मोरे, बालु सोमा मोरे, दादा सोमा मोरे, यशवंत सोमा मोरे,

						जिजाबाई रामा मोरे, महादु रामा मोरे, गंगाराम रामा मोरे, नारायण रामा मोरे, अन्य अधिकार जगाबाई सोमा मोरे, ढकाबाई खंडु ठोबरे, भागुबाई बापु पिसाल, गोजाबाई रामा मोरे,
			609 भाग	5400	निजी	बालासो बबनराव मालवतकर, सुरेश बबनराव मालवतकर, गणेश बबनराव मालवतकर, दिनेश बालासाहेब मालवतकर, मंगेश बालासाहेब मालवतकर, अपाक बालासो बबनराव मालवतकर, अन्य अधिकार, थोंडाबाई सालु कचरे, फूलाबाई संभाजी हाके.
		(2) खण्डाला	825 भाग	900	निजी	विमल गुलाबराव खंडागले, सुनिता दयाराम पवार, रंजित सजेराव पवार, अभिजीत सर्जेराव पवार, आजी विमल गुलाबराव खंडागले, अन्य अधिकार, वामन तुकाराम खंडागले, जनाबाई रंगराव जा, अलका संपत मढरे, हंसाबाई रामचंद्र खंडागले,
			829 भाग	300	निजी	जाईबाई बाजीराव भोंसले, साखरीबाई सर्जेराव येवले.

			830 भाग	200	निजी	मानसिंग विठोबा खंडागले, ए.कु.मँ, अन्य अधिकार, जयसिंग, संपत, विनायक, रामदास, सरजाबाई विठोबा खंडागले, वामन तुकाराम खंडागले.
			833 भाग	800	निजी	सतारा जिल्हा सहकारी बँक, शामराब लक्ष्मण खंडागले
			834 भाग	1700	निजी	भानुदास रामराव खंडागले, अन्य अधिकार, रामराव लक्ष्मण खंडागले, वामन तुकाराम खंडागले.
			838 भाग	200	निजी	भानुदास रामराव खंडागले, अन्य अधिकार, रामराव लक्ष्मण खंडागले, वामन तुकाराम खंडागले.
			842 भाग	600	निजी	विठ्ठल हैबती ढमाल, लक्ष्मण हैबती ढमाल.
			843 भाग	700	निजी	सतारा जिल्हा विकास बँक, लक्ष्मी अशोक खंडागले, अन्य अधिकार, शिवाजी ज्ञानदेव गाढवे, विठ्ठल हैबती ढमाल, दादा नानु ढमाल, 1. अनुसया तात्याबा खंडागले, 2. अशोक केरबा खंडागले.
			844 भाग	300	निजी	शिवाजी ज्ञानदेव गाढवे, दि बँक ऑफ बरोडा शाखा, खंडाला.
			845 भाग	800	निजी	दत्तात्रय सदाशिव राउत, रामचंद्र सदाशिव राउत, प्रकाश कृष्णा राउत,

						सुरेश कृष्णा राउत, दिगंबर हरी राउत, मारुती हरी राउत, अन्य अधिकार, नारायण नाडुरंग खंडागले, चंद्रभागा रामचंद्र किरबे, लताबाई अशोक शिंदे, हरणलता चंद्रकांत विरकर, राधाबाई कृष्णा राउत.
			848 भाग	500	निजी	शामराब हरी खंडागले, अन्य अधिकार, चेअरमन विकास सोसायटी, खंडाला.
			849 भाग	400	निजी	बाबुराव तात्याबा खंडागले, अन्य अधिकार, शंकर तात्या खंडागले, चेअरमन विकास सोसायटी, खंडाला.
			850 भाग	400	निजी	मुक्ताबाई रामचंद्र खंडागले, उत्तम रामचंद्र खंडागले.
			851 भाग	300	निजी	मुक्ताबाई रामचंद्र खंडागले, उत्तम रामचंद्र खंडागले.
			852 भाग	400	निजी	बसंत साहेबराव खंडागले, अन्य अधिकार, खंडाला विकास सोसायटी.
			853 भाग	200	निजी	श्रीरंग कृष्णा खंडागले, अन्य अधिकार, बसंत साहेबराव खंडागले, संपत मारुती खंडागले, उत्तम मारुती खंडागले, भगवान मारुती खंडागले.
			855 भाग	200	निजी	भानुदास रामराव खंडागले, ए.कु.मँ. अन्य अधिकार, खंडाला विकास सोसायटी.

			856 भाग	200	निजी	दि महाराष्ट्र राज्य, सहकारी कृषी व ग्रामीण, विकास बँक लिमिटेड, मुंबई शाखा खंडाला, अन्य अधिकार, शामराब लक्ष्मण खंडागले.
			857 भाग	100	निजी	नथुराम जगन्नाथ ढमाल, दत्तात्रय जगन्नाथ ढमाल, दिलीप जगन्नाथ ढमाल, नारायण जगन्नाथ ढमाल, पुष्पा अशोक खंडागले, सुनीता रामदास चव्हाण, भारती बालासो चव्हाण, सूरेशा अकुंशा खंडागले, सखुबाई दादासो ढमाल, कृष्णाबाई गुलाबराव यादव, मुक्ताबाई बालासो गोले, रत्नाबाई निवृत्ति कोचे, अनुसया जगन्नाथ ढमाल.
			858 भाग	200	निजी	महाराष्ट्र राज्य विकास बँक लिमिटेड, मुंबई, अन्य अधिकार, बाबु हरी ढमाल.
			859 भाग	200	निजी	लक्ष्मण हैवती ढमाल, विठठल हैबती ढमाल, श्वेता दशरथ चव्हाण, यमुना सुभाष जगताप.
			860 भाग	700	निजी	संपत मारुती खंडागले भगवान मारुती खंडागले, उत्तम मारुती खंडागले, अन्य अधिकार, सहायद्री नागरी सहकारी पतसंस्था सतारा.
		(3) शिन्देवाडी	262 भाग	100	निजी	शिवाराम सोनु सोनावणे, संजय शामसुंदर भिहाणे,

						अन्य अधिकार, बबीताई गणपत सोनावणे.
			263 भाग	200	निजी	ज्ञानोबा मारुती सोनावणे, आनंद शंकर सोनावणे, काकासो कृष्णा मेनकर, अन्य अधिकार, शोभा दिनकर सोनावणे, जयश्री दिनकर सोनावणे, वत्सला दिनकर सोनावणे
			265 भाग	400	निजी	आबासो बाबासो सोनावणे.
			266 भाग	300	निजी	आनंद शंकर सोनावणे, गुरुबच्चन सिंग, स्वरूप सिंग बराड, अन्य अधिकार, किरण, भरत, नयुनाथ, विठठल सोनावणे, रोहित शंकर, महागरे, शोभा जयश्री.
			267 भाग	1100	निजी	रमेशचंद्र नयनसुख संघवी
			268 भाग	1200	निजी	संजीव कुमार रमेशचंद्र संघवी, नावालिक का अभिभावक, रमेशचंद्र नयनसुख संघवी.
			270 भाग	300	निजी	जगन्नाथ दिनकर सोनावणे, गुलाब दिनकर सोनावणे, ज्ञानेबा मारुती सोनावणे, आनंद शंकर सोनावणे, रुक्मिणी विठठल सोनावणे, ए.कू.मँ. अन्य अधिकार, शोभा, जया.
			271 भाग	900	निजी	दत्तु गणपती सोनावणे, सतीश बाबुराव सोनावणे, ए.कू.मँ. दिपक नथु सोनावणे,

						वायलर इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अन्य अधिकार, सुमित्रा खाली.
			274 भाग	300	निजी	गुरुबच्चनसिंग स्वरूपसिंग बराड, अन्य अधिकार, ज्ञानदिप को-ऑपरटिव कोडिट सोसायटी, शाखा खंडाला.
			362 भाग	900	निजी	अण्णा धर्मजी शिंदे, गुलाब धर्मजी शिंदे, भानुदास भिकु शिंदे, महादेव विठठल शिंदे, पोपट विठठल शिंदे, अरुण विठठल शिंदे.
			363 भाग	400	निजी	दत्त दुर्योधन सोनावणे, शांताराम दुर्योधन सोनावणे.
			364 भाग	800	निजी	शामराव विठठल जोशी, अन्य अधिकार, शंकर कालु मलेकर, कलावती गुलाबराव जाधव, दत्त दुर्योधन सोनावणे, गीताबाई श्रीपति सोनावणे, शेवांता श्रीपति सोनावणे, शांताराम दुर्योधन सोनावणे.
			365 भाग	400	निजी	विलास गोविंद कदम.
			366 भाग	700	निजी	रघुनाथ बापुराव जोशी, शामराव दत्तात्रय जोशी, लक्ष्मीकांत लक्ष्मीमण जोशी
			367 भाग	3700	निजी	दुर्योधन श्रीपति सोनावणे, दत्तात्रय शंकर बोंद्रे.
			368 भाग	1500	निजी	सदाशिव रंगोबा एरंडकर, सुनिल किशन एरंडकर, अपाक,

						फुलाबाई, विनायक रंगोबा एरंडकर, कृष्णा दगडु पा.
			353 भाग	600	निजी	शिवराम हरी जाधव, सखाराम हरी जाधव, कमल दतोबा गुरव, चंद्रकांत मारुती पवार, अंकुश दिनकर मंहागरे, पोपट तुकाराम जाधव, विजय तुकाराम जाधव, राजेंद्र दत्तार.
			414 भाग	1600	निजी	बाबुराव गोविंद शिर्के
			426 भाग	2500	निजी	जयश्री अजय निंबालकर, शोभा चंद्रशंकर शिंदे.
			427 भाग	1200	निजी	शंकर सिताराम डोईफोडे, अन्य अधिकार, शिरवल विकास सोसायटी.
			428 भाग	4400	निजी	भिकु विठठु पवार, गणपत विठठु पवार, चंद्रकांत विठठु पवार, सुरेश विठठु पवार, रमेश विठठु पवार.
			553 भाग	2100	निजी	देवराम दिनकर जाधव, रामचंद्र जनु डोंगरे, सिंधु खाशाबा मुले, ज्ञानोबा दिनकर जाधव, उमेश मोहन जाधव, नाबालिक का अभिभावक, मंगल.
2.	सतारा	वेरी	494 भाग	1300	निजी	मृणालीनी बसंतराव बाबर.
			498 भाग	1300	निजी	विजय शिवाजी कुमार, पुष्पलता जनादर्न कदम.
			499 भाग	1000	निजी	कुरुसुम साहेबराव नवले.
			517 भाग	2200	निजी	प्रहलाद गणपति घुटे.
3.	वाई	वोपेगाँव	564 भाग	2500	निजी	शंकर गणपत संसाणे.

			565 भाग	1700	निजी	अरुण बालु पवार, अन्य अधिकार, 1. सुगंधाबाई, 2. रेश्मा मधुकर पवार.
			580 भाग	1900	निजी	पार्वती रामराव जाधव.
			582 भाग	500	निजी	आनंदराव शंकर शिंदे, जनार्दन शंकर शिंदे, अरविंद शंकर शिंदे, अविनाश शंकर शिंदे, अन्य अधिकार, बोपेगाँव विकास सहकारी सोसायटी, दि मुंबई वेस्टर्न बँक.
			597 भाग	300	निजी	श्री महादेव देव, हीराबाई बालकृष्ण ढेकणे, विसाजी राजाराम कुलकर्णी, अन्य अधिकार, भिकुबाई भीमराव सुतार, सोसायटी.
			603 भाग	1000	निजी	मनोहर गेनु जाधव, अनिल गेनु जाधव, अन्य अधिकार, बापु मारुती जाधव, गेनु भाऊजाधव, शशिकला संभाजी तरडे, फुलाबाई संभाजी सालुंके, विठाबाई गेनु जाधव.
			604 भाग	1000	निजी	मधुकर यदु तरडे, चंद्रभागा दत्तात्रय तरडे, किरण दत्तात्रय तरडे, दिगंबर दत्तात्रय तरडे, राजाराम दत्तात्रय तरडे, प्रताप दत्तात्रय तरडे, शंकर दत्तात्रय तरडे, कल्पना अशोक दुधावणे.

			626 भाग	600	निजी	कृष्णा विठोबा तरडे, विमल पांडुरंग शिंदे, सुनिता नंदकुमार शिंदे, अन्य अधिकार, ज्ञानोबा मारुती शिंदे.
			627 भाग	1400	निजी	ज्ञानोबा सदाशिव सुतार, हरीभाऊदादु सुतार, दिनकर दादु सुतार, रघुनाथ बाबुराव भोसले, अन्य अधिकार, बोपेगाँव विकास सोसायटी, दादासाहेब धर्माजी तरडे, जयप्रकाश धर्माजी तरडे.
			628 भाग	1100	निजी	अप्पा बाबुराव भोसले, रघुनाथ बाबुराव भोसले, विठठल बाबुराव भोसले, नारायण बाबुराव भोसले, किशन बाबुराव भोसले, संतोष आनंदराव भोसले, नाबालिक का अभिभावक सुलोचना, अन्य अधिकार, बोपेगाँव विकास सोसायटी सैनिक बैंक सतारा.
			629 भाग	1800	निजी	अप्पा बाबुराव भोसले, रघुनाथ बाबुराव भोसले, विठठल बाबुराव भोसले, नारायण बाबुराव भोसले, किशन बाबुराव भोसले, संतोष आनंदराव भोसले, नाबालिक का अभिभावक सुलोचना, अन्य अधिकार, बोपेगाँव विकास सोसायटी सैनिक बैंक सतारा.

			775 भाग	300	निजी	हनुमंत खाशाबा तरडे, प्रशांत रामदास तरडे, नाबालिक का अभिभावक आजी यशोदा, आनंदराव तरडे, पुष्पा उत्तम मोरे, रेखा दिलीप यादव.
			776 भाग	300	निजी	जगु आबा जाधव.
			777 भाग	900	निजी	नितीन लक्ष्मण जाधव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बँक लिमिटेड मुंबई शाखा सतारा, अन्य अधिकार, बोपेगाँव सोसायटी, मकरंद लक्ष्मणराव जाधव.
			779 भाग	600	निजी	जगु आबा जाधव.

[फा. सं. भा.रा.रा.प्रा./13011/भू.अ./महाराष्ट्र/2002/नि.नि.]

अशोक जोशी, सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2003

S.O. 176(E).— WHEREAS, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 266 (E), dated the 28th February 2002, published in Gazette of India (Extraordinary) Part II, section 3, sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had declared its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to that notification, for the public purpose of (four-lanning) of National Highway No.4 from Km. 725 to Km. 797, (Pune to Satara Section) in the District of Satara in the State of Maharashtra.

AND WHEREAS, in pursuance of sub-section (1) of section 3 D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

NOW, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto are to be acquired for the aforesaid purpose;

AND, further in pursuance of sub-section. (2) of section 3 D of the said Act, on the publication of this notification in the Official Gazette, the lands specified in the said Schedule, shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of lands to be acquired for four lanning Pune-Satara Section of National Highways No.4 Km.725 to Km 797 in Satara District in the State of Maharashtra.

DISTRICT : SATARA

SI. No	Name of Taluka	Name of Village	Survey No. / House No.	Area in Sq.Mtr	Type of Land	Name of the Owner of Land or other interested person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Khandala	(1) Kesurdi	635Part	2000	Private	Bhagwan parbati Dhamal, Tanaji Parbati Dhamal, Shivaji Parbati Dhamal, Dattu Parbati Dhamal, Shard Nathu Dhamal, Vittal Nathu Dhamal, Ramdas Nathu Dhamal, Indrajit Balaso Dhamal, Other right, Mangal parbati Dhamal, Shalan Kisan Salunke, Smindrabai Baburao Pawar, Dropadabai Parbati Dhamal, Lilabai Balaso Dhamal, Tukaram Balaso Dhamal, Dyneshwer Balaso Dhamal, Sindu Dattay More,
			636 Part	2400	Private	Dinkar jaganath Pawar, Bhikaji Jaganath pawar, Maharashtra State Co-Oprrative Land Devlopment Bank Limited Mumbai Branch Wai, Bhagubai Jaganath Pawar, Naturam Jaganath Pawar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			637 Part	2000	Private	Uttam Kondiba Pawar, Dattatraya Kondiba Pawar, Nathu Kondiba Pawar, Other right, Sugindabai Kondiba Pawar, Rantnabai Ramcjhandra Chavan, Aprakabai Kondiba Pawar.
			627 Part	5100	Private	Ragunath Gangaram Dhamal, Veyankat Gangaram Dhamal, Maharashtra Sahakari Krshi and Gramin Vikas Bank Ltd. Mumbai Branch Khandala Development Bank Limited Mumbai Branch Khandala, Rajesh Kantilal Shah, Krishna Gangaram Dhamal, Alka Vittal Dhamal, Nitin Vittal Dhamal, Ganesh Vittal Dhamal,
			628 Part	1900	Private	Nathu Sadu Dhamal, Sujata Rajendra Shan Rajendra Chandulal Shah Other Right, Naygaon Vikas Socity Yashwant Vaman Dhamal, Mukunrao Vishnupant Pral,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			633 Part	1400	Private	Yeshwantrao Vishnupant Papal, Lalita Vijay Bosh, Sarsbai Motilal Mutha, Jitindrasingh sintoshsingh Gadakha, Sarasbai Mothila Mutha, Jitendrashing Santosingh Gadkakh,
			634 Part	1000	Private	Nanda Balaso Sagle, Dhanjay Balaso Sagle, Savgiri Balaso Salgle, Yeshawada Balaso Sagle, Gita Balaso Sagle, Minor Gardian, Mother Nanda, Maruti Baburao Sagle,
			624 Part	800	Private	Khandu Baghu Thombare, Eaknath Khandu Thombare, Tukaram Khandu Thombare, Yashwant Khandu Thombare, Santosh Khandu Thombare, Shidu Kandu Thombare, Nagesh Khandu Thombare,
			625 Part	2900	Private	Vitthal Nathu Pawar, Other right, Tukaram Dnayanoba Rohidas, Nathu Pawar, Tanhubai Nathu Pawar, Rangubai Nanayan Gaikwad, Tarabai Dodiram Jadhav,

427 GI/03-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			626 Part	3100	Private	Manyaba Sakharam Pawar, Balu Manyaba Pawar, Anna Manyaba Pawar, Parameshwar Manyaba Pawar, Baburao Kondi Pawar, Other right, Shewantobai Sakharam Pawar.
			623 Part	6600	Private	Balaso Kondiba Deokate, Dondiba Kondiba Deokate, Sindhu Kondiba Deokate, Rajaram Saoma Mote, Balu Soma Mote, Dada Soma Mote, Yeshwant Soma Mote, Jejabai Rama Mote, Mahaju Rama Mote, Gangaram Rama Mote, Narayan Rama Mote, Other right, Sakhubai Soma Mote, Thakabai Kandu Thmobaré, Jagabai Sonba Thombare, Bhagabai Bapu Pisal, Gojabai Rama Mote,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			609 Part	5400	Private	Balaso Babanroa Malwadkar, Suresh Babanrao Malwadkar, Ganesh Babanroa Malwadkar, Dinesh Balaso Malwadkar, Mangesh Balaso Malwakar, Minor of Gardinan, Balaso Babanrao Malwakar, Other right, Dhodabai Salu Kachre, Fulabai Sambhaji Hake.
		(2) Khandala	825 Part	900	Private	Vimal Gulabrao Khandagale, Sunita Dayaram Pawar, Ranjit Sirjirao Pawar, Abhijeet Sirjirao Pawar, Grandmother Vimal Gulabro Khandagale, Other right, Vaman Tukaram Kandagale, Janabai Rangrao Ja, Alka Sampat Mandre, Husabai Ramchandra Kandagale.
			829 Part	300	Private	Jaibai Bajirao Bhosle, Skharibai Sirjirao Yawale.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			830 Part	200	Private	Manshingh Vithoba Kandagale (JF.M), Other right, Jaysingh, Sampant, Vinayak, Ramdas, Sirjabai, Vithoba, Kandagale, Waman Tudaram Kandagale.
			833 Part	800	Private	Satara Dist. Co. Bank, Samrao Laxsuman Kandagale.
			834 Part	1700	Private	Banudas Ramrao Kandagale, Other right, Ramrao Laxsuman Kandagle, Waman Tukaram Kandagale.
			838 Part	200	Private	Banudas Ramrao Kandagale, Other right, Ramrao Laxsuman Kandagle, Waman Tukaram Kandagale.
			842 Part	600	Private	Vithol Haibti Damal, Laxsuman Haibti Damal.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			843 Part	700	Private	Satara Dist. Co. Bank, Laxsumi Ashok Kandagale, Other right, Shivaji Dyanadev Gadwe, Vithol Haibti Daml, Dada Nanu Daml, 1. Anusaya Tataiba Kandagale, 2. Ashok Kirba Kandagale.
			844 Part	300	Private	Shivaji Dayanadev Gadwe, The Bank of Baroda Branch, Kandala.
			845 Part	800	Private	Dattaya Sadashiv Raut, Ramchandar Sadashiv Raut, Praksh Krishna Raut, Suresh Krishna Raut, Digambar Hari Raut, Maruti Hari Raut, Other right, Narayan Randurang Kandagale, Chandrabaga Ramchandra Kirwe, Latabai Ahok Shinde, Harnlata Chandrakant Virkar, Radhatbai Krishna Raut.
			848 Part	500	Private	Shamrao Hari Kandagale, Other right, Chairman Vikas Socity Kandala.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			849 Part	400	Private	Baburao Tatyba Kandagale, Other right, Shankar Tatyba Kandagale, Chairman Vikas Society Kandala.
			850 Part	400	Private	Muktabai Ramchandra Kandagale, Uttam Ramchandra Kandagale.
			851 Part	300	Private	Muktabai Ramchandra Kandagale, Uttam Ramchandra Kandagale.
			852 Part	400	Private	Visant Sahabrrao Kandagale, Other right, Kandala Vikas Society.
			853 Part	200	Private	Shrirang Krishna Kandagale, Other right, Visant Sababrao Kandagale, Sampat Maruti Kandagale, Uttam Maruti Kandagale, Bahagwan Maruti Kandagale.
			855 Part	200	Private	Bhanudas Ramrao Kandagale, (JF.M) Other right, Kandala Vikas Society.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			856 Part	200	Private	The Maharashtra State Land, Development Bank Limited, Mumbai Branch Kandagala, Other right, Shamrao Laxsuman Kandagale.
			857 Part	100	Private	Naturam Jaganath Damal, Dattray Jaganath Damal, Dillip Jaganath Damal, Narayan Jaganath Damal, Pushpa Ashok Kandagale, Sunita Ramdas Chavan, Bharati Balaso Chavan, Surakaha Ankusha Rangole, Sakhubai Dadaso Damal, Krishnabai Gulabrao Yadhav, Muktabai Balaso Gole, Rantnabai Niruti Kochay, Anusaya Jaganath Damal.
			858 Part	200	Private	The Maharashtra State Land, Development Bank Limited, Mumbai Other right, Babu Hari Damal.
			859 Part	200	Private	Laxsuman Haibti Damal, Vithol Haibti Damal, Savinta Deshrath Chavan, Yamuna Subhash Jagtap.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			860 Part	700	Private	Sampat Matuti Kandagale, Bhagwan Maruti Kandagale, Uttam Muruti Kandagale, Other right, Sayadri Nagari Sahakari Patsantha Satara.
		(3) Shindewadi	262 Part	100	Private	Shivaram Sonu Sonawane, Sanjay Shamsundar Bhihane, Other right, Babitai Ganpat Sonawane.
			263 Part	200	Private	Dynoba Maruti Sonawane, Ananda Shankar Sonawane, Kakaso Krishna Mainkar, Other right, Shobha Dinkar Sonawane, Jayashree Dinkar Sonawane, Vatshala Dinkar Sonawane.
			265 Part	400	Private	Aabaso Babaso Sonawane.
			266 Part	300	Private	Anand Shakar Sonawane, Gurubacchan Singh, Swarupsingh Barad, Other right, Kiran, Bhart, Nunath, Vithol Sonawane, Rohini Shankar, Mahagangare, Shoba Jaushree.
			267 Part	1100	Private	Ramashchandra Nayansukha Sangavi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			268 Part	1200	Private	Sanjiva Kumar Ramashchandra Singavi, Minor of Gardian, Ramashchandra Nayansukha Sangavi,
			270 Part	300	Private	Jaganath Dinkar Sonawane, Gulab Dinkar Sonawane, Dynoba Maruti Sonawane, Anand Shankar Sonawane, Rukhamini Vithol Sonawane, (Joint Family Member), Other right, Shobha Jaya.
			271 Part	900	Private	Dattu Ganpati Sonawane, Satish Baburao Sonawane (J.F.M.), Deepak Nathu Sonawane, Vilar Intertional Elec. Pvt. Ltd, Other right, Sumitra Khali.
			274 Part	300	Private	Gurubhanchansingh Swarupsingh Barad, Other right, Dyndeep Co-op credit Soc. Branch Kandala.
			362 Part	900	Private	Anna Dharmaji Shinde, Gulab Dharmaji Shinde, Bhanudas Bhiku Shinde, Mahadev Vithol Shinde, Popet Vithol Shinde, Arun Vithol Shinde.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			363 Part	400	Private	Dattu Durodhan Sonawane, Shaharam Durodhan Sonawane.
			364 Part	800	Private	Shamrao Vithol Joshi, Other right, Shankar Kalu Malakar, Kalawati Gulabrao Jadhav, Dattu Durodhan Sonawane, Getabai Shripati Sonawane, Savanta Shripati Sonawane, Shaharam Durodhan Sonawane.
			365 Part	400	Private	Vilas Govind Kardan.
			366 Part	700	Private	Ragunath Bapurao Joshi, Shamrao Datray Joshi, Laxsumikant Laxsuman Joshi.
			367 Part	3700	Private	Durodhan Shripati Sonawane, Datray Shankar Bodnre.
			368 Part	1500	Private	Sadashiv Rangoba Earandkar, Sunil Kisan Earandkar, Minor of Gardian, Pulabai. Vinayak Rangoba Enrandkar, Krushna Dagdu Pa.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			353 Part	600	Private	Shivram Hari Jadhav, Sakharam Hari Jadhav, Kamal Datoba Gurav, Chandrakant Maruti Pawar, Chandrakant Maruti Pawar, Ankush Dinkar Mahangare, Papat Tukaram Jadhav, Vijay Tukaram Jadhav, Rajandra Dattr.
			414 Part	1600	Private	Baburao Govind Shrke.
			426 Part	2500	Private	Jayshree Ajay Nimbalkar, Shoba Chandrashakar Shinde.
			427 Part	1200	Private	Shankar Shitaram Doyephode, Other right, Shrval Vikas Society
			428 Part	4400	Private	Bhiku Vithu Pawar, Gapat Vithu Pawar, Chandrakant Vithu Pawar, Suresh Vithu Pawar, Ramesh Vithu Pawar.
			553 Part	2100	Private	Devran Dinkar Jadhav, Ramchandra Janu Dogare, Shidu Khashaba Mule, Dynoba Dinkar Jadhav, Umeash Mohan Jadhav, Minor of Gardian, Mangail.
2.	Satara	Verye	494Part	1300	Private	Mrunalini Vasanrao Baber,
			498Part	1300	Private	Vijay Shivaji Kumbhar, Puspalata Janerdan Kadam.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			499 Part	1000	Private	Kusum Sahebrao Nawale
			517 Part	2200	Private	Pralhad Ganpati Ghute.
3.	Wai	Bopegaon	564 Part	2500	Private	Shankar Ganpat Sasane,
			565 Part	1700	Private	Arun Balu Pawar, Other right, 1. Sugandhabai, 2. Reshma Madukar Pawar.
			580 Part	1900	Private	Parwati Ramrao Jadhav.
			582 Part	500	Private	Anandro Shankar Shinde, Janerden Shankar Shinde, Arvind Shankar Shinde, Avinash Shankar Shinde, Other right, Bopagaon Vikas Sahakari Society, The Uited Westen Bank.
			597 Part	300	Private	Shri. Mahadev Dev, Hirabai Balkrishna Dkhni, Visaji Rajaram Kulkarni, Other right, Bhikubai Biamrao Sutar Society.
			603 Part	1000	Private	Manohar Genu Jadhav, Anil Genu Jadhav, Other right, Bapu Maruti Jadhav, Ganubahu Jadhav, Shshekala Sadashiv Tarde, Pullabai Sambhaji Salunke, Vithabai Genu Jadhav.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			604 Part	1000	Private	Madukar Yadu Trade, Chandrabhaga Dattua Trade, Kiran Dattray Trade, Digambar Dattray Trade, Rajaram Dattray Trade, Pratap Dattray Trade, Shankar Dattray Trade, Kalpana Ashok Dhudhavance.
			626 Part	600	Private	Krishna Vithoba Trade, Vimal Pandurang Shinde, Sunita Nindakumar Shinde, Other right, Dyanoba Maruti Shinde.
			627 Part	1400	Private	Dyanoba Sadashiv Sutar, Haribao Datu Sutar, Dinkar Datu Sutar, Raghunath Baburao Bhosale, Other right, Bopagaon Vikas Society, Dadasahab Darmaji Trade, Jayprakash Darmaji Trade.
			628 Part	1100	Private	Appa Baburao Bhodale, Ragunath Baburao Bhosale, Vithal Baburao Bhosale, Narayan Baburao Bhosale, Kisan Baburao Bhosale, Santosh Anandrao Bhosale, Minor Gardian Sulochina, Other right, Bopagaon Vikas Society, Senik Bank Satara.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			629 Part	1800	Private	Appa Baburao Bhodale, Ragunath Baburao Bhosale, Vithal Baburao Bhosale, Narayan Baburao Bhosale, Kisan Baburao Bhosale, Santosh Anandrao Bhosale, Minor Gardian Sulochina, Other right, Bopagaon Vikas Society, Senik Bank Satara.
			775 Part	300	Private	Hanumant Khashala Trade, Prashant Ramdas Trade, Gardian Minor, Yashoda Anandrao Trade, Pushpa Uttam More, Rakha Deelip Yadhav.
			776 Part	300	Private	Jagu Abba Jadhav.
			777 Part	900	Private	Nitin Laxman Jadhav, Maharashtra State Sahakar Krushe & Gramin Bank Ltd, Mumbai Branch Satara, Other right, Bopagaon Society, Makrand Laxmanrao Jadhav.
			779 Part	600	Private	Jagu Abba Jadhav.

[F. No. NHAI/13011/LA/MAH/2002/PI]

ASHOKE JOSHI, Secy.